

Date 28.04.26

Publication: Prabhat Khabar

कोल इंडिया का चौथी तिमाही में मुनाफा ₹10,000 करोड़ के पार

एजेसियां, नयी दिल्ली

सरकारी कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड का मुनाफा मार्च तिमाही में 10 हजार करोड़ के पार रहा है. कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 11.15% बढ़कर 10,839 करोड़ रुपये रहा. इसके पहले वित्त वर्ष 2024-25 में यह 9,751.6 करोड़ रुपये था. वहीं, तिमाही के दौरान रेवेन्यू 5.8% बढ़कर 43,961 करोड़ रुपये से 46,490 करोड़ रुपये हो गया. कोल इंडिया

का कर पूर्व लाभ (इबीआइटीडीए) 6.2% बढ़कर 11,932 करोड़ से 12,673.2 करोड़ रुपये हो गया. हालांकि, इबीआइटीडीए मार्जिन 27% पर ही स्थिर रहे. मार्च में कोयला उत्पादन 1.5% घटकर 84.5 मिलियन टन रह. वहीं, ऑफटेक यानी सप्लाई 0.7% बढ़कर 69.5 मिलियन टन हो गयी. कोल इंडिया के बोर्ड ने पूरे वित्त वर्ष के लिए 10 रुपये की फेस वैल्यू पर 5.25 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की घोषणा की है.

Date 28.04.26

Publication: The Hindu Business Line

CIL profit up 11% at ₹10,839 cr in Q4 on higher revenues

Press Trust of India
New Delhi

State-owned CIL on Monday reported a 11.1 per cent rise in consolidated net profit at ₹10,839.18 crore in the March quarter, driven by higher revenue.

Coal India Ltd (CIL) logged a consolidated net profit of ₹9,751.64 crore in the year-ago period.

In a filing to the BSE, the Maharatna firm said its revenue from operations rose to ₹46,490.03 crore from ₹43,961.56 crore in the corresponding quarter of the previous fiscal year.

The consolidated expenses of the company during the fourth quarter of the previous fiscal year rose to ₹37,107.07 crore compared to ₹34,999 crore in the year-ago period, said CIL in a filing to the BSE.

FULL-YEAR PROFIT

However, the company's net profit for the year ended March 31, 2026, dropped to



₹31,094.29 crore over ₹35,505.79 crore for the year ended March 31, 2025.

The revenue for 2025-26 marginally declined to ₹1,68,400.29 crore over ₹1,69,177.37 crore for the year ended March 31, 2025.

FINAL DIVIDEND

The board of directors declared a final dividend of ₹5.25 per equity share for FY26 and added that the payment of final dividend will be made, subject to approval of shareholders in the ensuing AGM.

The company produced 768.19 million tonnes (mt)

of coal in FY26 over 781.06 in FY25. The coal offtake in FY26 was 744.88 mt over 762.98 mt in FY25.

The opening coal stock of CIL as on April 1, 2025, was 107.16 mt, while the closing stock as on March 31, 2026, was 129.96 mt.

MEET DEMAND

CIL is the single-largest coal producer in the world. Across eight States, CIL operates in 85 mining areas, managing a total of 310 working mines, consisting of 129 underground, 168 open-cast and 13 mixed mines.

The PSU contributes to 80 per cent of total domestic coal production and 75 per cent of total coal-based power generation. CIL contributes to 55 per cent of total power generation and meets 40 per cent of the primary commercial energy requirements of the country.

CIL aims to increase coal production to 1 billion tonnes by 2028-29 to reduce dependence on imports and meet domestic demand.